



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार **The Patent Office, Government Of India**
पेटेंट प्रमाण पत्र **Patent Certificate**

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 532113

आवेदन सं. / Application No. 202241032094

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 04/06/2022

पेटेंटी / Patentee INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT MADRAS)

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) 1.R Anoop Krishnan 2.Kasinath Panda 3.Aashif Ali 4.Dr. A Ramesh

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित "CONTROLLING TEMPERATURE OF A GLOW PLUG DURING OPERATION IN A HOT SURFACE IGNITION ENGINE" नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2022 के चौथे दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled "CONTROLLING TEMPERATURE OF A GLOW PLUG DURING OPERATION IN A HOT SURFACE IGNITION ENGINE" as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 4th day of June 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



(Signature)
इकांत की अंसि

अनुदान की तारीख / Date of Grant : 08/04/2024
पेटेंट नियंत्रक / Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जून 2024 के चौथे दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 4th day of June 2024 and on the same day in every year thereafter.